

अध्याय-12

बादल कबआओगे?

इन शब्दों के अर्थ लिखो-

मेड़-खेत में पानी को रोकने के लिए मिट्टी से बनाई हुई दीवार।

टकटकी- लगातार देखना ।

व्याकुल - परेशान ।

हाहाकार -घबराते हुए चिल्लाना ।

आस-उम्मीद।

सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ-

1.किसान का बेटा किसका इंतजार कर रहा है ?

क. बादल आने का [√] ख.गर्मी आने का ग. सर्दी आने का

2.बहते पानी को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है?

क. रोड ख.मेड़ [√] ग.पेड़

3.पौधे क्यों सूखने लगे थे ?

क.वर्षा के कारण ख.सर्दी के कारण ग. बारिश न होने के कारण [√]

4.किसान किसकी तैयारी अभी से कर रहा था?

क. खेतीकरने का [√] ख.बागान की ग. बगीचे की

5.किसान क्यों परेशान था ?

क.गर्मी के कारण ख.वर्षा के कारण ग.वर्षा न होने के कारण[√]

इन प्रश्नों के उत्तर लिखो -

1.किसान का बेटा किसका इंतजार कर रहा था?

उत्तर किसान का बेटा बारिश का इंतजार कर रहा था ।

2. किसान ने खेती करने के लिए क्या-क्या तैयारी की थी?

उत्तर-किसान ने खेती करने के लिए बैलों को खूब खिला-पिलाकर खेत जोत लिए थे,मेड़ बना लिए थे,तथा खेतों में बीज बो दिए थे।

3.अगर बारिश ना हो तो क्या होगा ?

उत्तर-अगर बारिश ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे पेड़-पौधे सूख जाएंगे धरती सूख कर फटने लगेगी ।

4. एक किसान के जीवन पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर- एक किसान के जीवन पर वर्षा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगा और खाने के लिए अन्न नही ही मिलेगा और किसान को भूखे रहना पड़ेगा ।

काल किसे कहते हैं ? काल के कितने भेद हैं?

उत्तर- किसी काम के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं-भूतकाल,वर्तमान काल,भविष्य काल।

दिए गए वाक्यों को पहचान कर उसका काल लिखें-

1. किसान ने हल चलाकर खेत जोता था । (भूतकाल)
2. पौधे सूख गए थे। (भूतकाल)
3. पापा ने बीज बोए और मेड़ लगाई थी । (भूतकाल)
4. गर्मी के मौसम के बाद बारिश का मौसम होगा । (भविष्य काल)
5. आसमान में सूरज चमक रहा है। (वर्तमान काल)
6. धरती से बादल रूठे हैं। (वर्तमानकाल)